

February 3, 2020

BSE LimitedP. J. Towers
Dalal Street, Fort **Mumbai - 400 001**

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai - 400 051

Dear Sirs,

Sub.: Submission of copies of published Unaudited Consolidated Financial Results

In continuation of our letter dated January 31, 2020, we enclose copies of the Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended December 31, 2019 published on February 1, 2020 in MINT (English) and HINDUSTAN (Hindi).

This is for information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For Jubilant Life Sciences Limited

Rajiv Shah Company Secretary

Encl.: as above

A Jubilant Bhartia Company



Jubilant Life Sciences Limited 1-A, Sector 16-A, Noida-201 301, UP, India Tel:+91 120 4361000 Fax:+91 120 4234895-96 www.jubl.com Regd Office: Bhartiagram, Gajraula Distt. Amroha - 244 223,

CIN: L24116UP1978PLC004624

Indian Institute of Corporate Affairs (Ministry of Corporate Affairs) Plot no. P-6, 7, 8, Sec-5, IMT Manesar, Distt. Gurgaon, Haryana

Last date to accept applications for the following posts has been extended till 15.02.2020 till 6 P.M. as per details given below-

- 1. Chair Professor- IBBI Research Chair
- 2. Chair Professor for RBI Research Chair
- 3. Associate Professor- School of Corporate Law (reserved for OBC)

Details containing educational qualifications, experience etc. required for aforementioned positions are available on the website of the https://iica.nic.in/human_ Institute at advertise.aspx.

Indian Institute of Corporate Affairs (Ministry of Corporate Affairs) Plot no. P-6, 7, 8, Sec-5, IMT Manesar Distt. Gurgaon, Haryana

- Invites applications for filling up the following positions on Deputation-
- Chief Administrative Officer level 13 in Pay
- ii. Chief Finance Officer level 13 in Pay Matrix
- iii. Administrative Officer level 12 in Pay Matrix
- iv. Finance Officer level 12 in Pay Matrix

Last date to accept applications is 05.03.2020 till 6 P.M. Applications are also invited from interested and eligible candidates for walk in interview for the

Partnership & Promotion" on 5th February, 2020. Details regarding eligibility criteria are available on the website of the Institute at https://iica.nic.in/human advertise.aspx.

position of "Chief Program Executive-



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(COMMERCIAL LAND BRANCH)

Auction of Plot/Land at Peeragarhi for Large Integrated Commercial Development (LICD): Attention Eol Dated 11 March, 2019

In continuation of Expression of Interest (EoI) dated 11th March 2019, Delhi Development Authority has decided to e-auction a plot ad-measuring 1,16,000 (approx.) sq.mtr. at PEERAGARHI, DELH for large integrated commercial development, which is intended to evolve into shopping, socializing and entertainment hubs where families can shop in bulk and spent time together. The complex will be designed by single developer/Joint Venture and will consist of an integrated avenue for shopping, large discount stores, entertainment, art and culture and celebrations at one place.

The auction purchaser will be allowed to undertake the aforesaid development as per the specification of Lay Out Plan (LOP) of the plot within the overall provisions of MPD-2021 and Unified Building Bye Laws (UBBL) 2016. The plot/land will be disposed of on freehold basis.

E-auction document containing detail terms and conditions for auction of above plot will be available on DDA's website www.dda.org.in with effect from 15.02.2020. Prospective/ interested bidders are advised to check/download the e-auction document from the DDA's website.

Director (CL)

Visit DDA Website: www.dda.org.in or Toll Free No. 1800-110332



GAIL (India) Limited

NOTICE

NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors is scheduled for Monday. 10th February, 2020 to interalia consider:-

1.Un-audited financial results for the quarter ended 31st December, 2019 and 2. Recommendation of Interim Dividend on the equity shares of the Company for FY 2019-20 Trading Window shall remain closed for the period Wednesday, 1st January, 2020 to 12th February, 2020 (Wednesday) for Designated Persons for dealing in securities of the

The Company has fixed Tuesday, 18th February, 2020 as the 'RECORD DATE', for the purpose of determining the eligibility of the members of the Company for the above interim dividend, if so approved by the Board. Members of the Company whose names appear as on the said 'RECORD DATE' would be entitled for the said interim dividend:

a) as member(s) holding shares in physical mode, in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid transfer request(s), lodged with R&TA/Company on or before Tuesday, 18th February, 2020; and

b) as Beneficial Owner(s) holding shares in *electronic mode*, details as furnished by the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of said Record Date.

Members who have not yet registered their e-mail id or who want to change their e-mail ID are requested to approach their respective DPs. Member(s) are requested to keep their email ID validated with their DP/R&TA, so as to receive all communication electronically including annual report, notices, circulars, etc. sent by the Company from time to time. To avail the National Automated Clearing House (NACH) facility i.e. direct credit of dividend amount in the bank account, Members are requested to update bank details with their Depository (DP). Member(s) who have not yet encashed their Dividend Warrant(s) may approach the

formalities, at least a month before the due date for transfer to IEPF. Member(s) may visit 'Investor Zone' section at Company's website for further reference. To facilitate the member(s) to register their request/complaint, if any, designated e-mail ID of the R&TA and Company is admin@mcsregistrars.com and shareholders@gail.co.in. Registered Office: 16, Bhikaiji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi - 110066

R&TA/Company for issuance of demand draft(s) upon completion of necessary

{CIN: L40200DL1984G0I018976}, Phone: 011-26182955, Fax: 011-26185941.

Place: New Delhi For GAIL (India) Limited Date: 28.01.2020 (A.K. Jha) E-mail: shareholders@gail.co.in Website: www.gailonline.com Company Secretary

THINK DIGITAL. BE DIGITAL



EOI NOTICE

PROVIDING SOLUTION FOR TRANSPORTATION OF MILK IN TAMPER PROOF FLEET

M.P. State Co-operative Dairy Federation invites Expression of Interest (EOI) from qualified and experienced organizations/individuals for providing solution for transportation of milk in tamper proof, sealed and secured fleet with vehicle tracking system.

Interested Bidders who qualify as per the criteria mentioned in the document may submit their response to the EOI latest by 14 Feb., 2020. Interested organizations may view/download the EOI from https://mptenders.gov.in and submit their offer online

The proposal must accompany a non-refundable amount of Rs. 1,000/-(Rupees One Thousand only) towards EOI Document Fees at the time of submission of the proposal submitted online. The detailed EOI document

can be viewed on Website: https://mpcdf.gov.in also. M.AP. Madhyam/96665/2020 MANAGING DIRECTOR

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण **AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA** NOTICE INVITING E-TENDER (ID No.: 2020_AAI_41565_1)

E-Tenders are invited on behalf of the Chairman, Airports Authority of India for the work of "SAP-ERP Hardware Refresh and Associated Services at AAI Delhi Data Centre" with an estimated cost of 130,383,901/-. Please visit CPP portal: https://etenders.gov.in for downloading the tender document, eligibility criteria, other related corrigendum & online submission of the e-tenders. The detailed NIT can also be seen on the AAI website: www.aai.aero. Further clarification/corrigendum in this regard, if any, will be put up only on CPP portal/AAI website. (N-104/2019-20)

RELIABLE VENTURES INDIA LIMITED

Regd. Off : "Reliable House", A-6, Koh-e-fiza Indore Road, Bhopal - 462001 (M.P.) **COMPANY NOTICE**

In terms of the Reg. 47 of SEBI (LODR) Regulation 2015, Notice is hereby given that the Board of Directors of the Company shall meet on Friday, the 07th Day of February, 2020 at 4.30 P.M. to consider, inter-alia, and approve financial results of the company for the nnanciar results of the company for the quarter ended 31st, December, 2019.

The Notice is also available on the website of the Company i.e. 'Noorussabahpalace.com' and BSE vebsite **www.bseindia.com**. For Reliable Ventures India Limited

Place: Bhopal Date : 28/01/2020



Today's business world is a little like instant noodles. Something is always cooking every two minutes.

That's why we always keep you two steps ahead with the latest news acquisitions, and everything in



C.G. Police Housing Corporation, Raipur H.Q. - Old PHQ, Civil Line, Raipur (CG)

Phone 0771- 4020028 **TENDER NOTICE (1st CALL)**

Online Tenders are invited according to Key dates for Supply and erection of Prefabricated structure sandwich puf panels, Barrack all wall panels will be hade up of 50 mm thick PUF Panels with guard film. The panels will be made up of 0.50 mm thick (TCT) PPGI on both side with 49 mm thick layer of rigid CFC free polyurethane foam (PUF) of density 40 kg +/- 2 kg/ 3 M3 as insulation the wall PUF panels will be provided with tongue and groove joint and will be nter locked with cam lock systems of following of one safety barrack (Total 13 Barrack) at at Khodgaon, Mine Area, Raoghat, District - Narayanpur Including all necesssories development works, Tender System No. - 60471 which are available from 01/02/2020 (10:30am) to 19/02/2020 (17:30pm) in CGPHC Portal https://eproc.cgstate.gov.in along with other details

Managing Director



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय मार्ग न. 15 बीकानेर फोन नं.- 0151-2212046,

ईमेल एड्रेस-mgsucomptroller@yahoo.in ई-निविदा ज्ञापन संख्या 07/2019-20

विश्वविद्यालय द्वारा निविदा ज्ञापन संख्या 07/2019-20 के तहत दो निविदाऐं 1- स्मार्ट क्लास एव मीटिंग रूम वीसी 2- वर्चअल सिमलेशन स्मार्ट लैब. के उपापन (अनुमानित लागत 167 व 121 लाख क्रमशः) हेतु जारी की गई है जिसका यूबीएन GSU1920GLOB00041 & GSU1920GLOB00042 है। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी दिनांक 30/01/2020 सांय 5:00 बजे से http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in तथा http://mgsubikaner.ac.in प



Jubilant Life Sciences Limited

Regd. Off.: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN: L24116UP1978PLC004624 Website: www.jubl.com | Email: investors@jubl.com | Tel: +91-5924-267200

Extract of Consolidated Unaudited Results for the Quarter and Nine months ended 31 December 2019

						(₹ in Lakhs)
		Quarter Ended		Nine Mon	Year Ended	
Particulars	31 December	30 September	31 December	31 December	31 December	31 March
Farticulars	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
	2019	2019	2018	2019	2018	2019
Total revenue from operations	231521	226593	237710	676300	672524	911082
Net Profit before tax, exceptional and extraordinary items	32796	29223	37075	88922	98926	118404
Net Profit before tax (after exceptional and extraordinary items)	29332	29223	35561	85458	94379	90381
Net Profit after tax, exceptional and extraordinary items	20338	24939	26752	63775	67766	57701
Total comprehensive income after tax (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	25299	27320	8728	75822	65201	56323
Earnings per share of ₹ 1 each (Not annualized)						
Basic (₹)	12.77	15.66	16.74	40.04	43.24	36.86
Diluted (₹)	12.77	15.66	16.74	40.04	43.24	36.86
Equity share capital	1593	1593	1558	1593	1558	1593
Reserves (excluding revaluation reserve)						479299

The Company has opted to publish consolidated results for the year ending 31 March 2020. The standalone unaudited results are available under Investors section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key standalone financial information of the Company is as under

Particulars -		Quarter Ended		Nine Mon	Year Ended				
	31 December	30 September	31 December	31 December	31 December	31 March			
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			
	2019	2019	2018	2019	2018	2019			
Total revenue from operations	80118	75754	85958	234854	257349	343861			
Profit before tax	3496	10620	5238	18848	17704	18343			
Net profit after tax	3463	14307	3670	20996	14019	14763			

- 2. The above consolidated unaudited results were, subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 31 January 2020.
- The above is an extract of the detailed format of the consolidated unaudited results for the guarter and nine months ended 31 December 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format for the consolidated unaudited results for the quarter and nine months ended 31 December 2019 is available under Investors' section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Jubilant Life Sciences Limited

Hari S. Bhartia

Place: Noida : 31 January 2020 Co-Chairman & Managing Director



NATIONAL FERTILIZERS LIMITED

(A Government of India Undertaking)

Regd. Office: SCOPE Complex, Core-III. 7-Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003 Website: www.nationalfertilizers.com | CIN-L74899DL1974GOI007417



Place : Noida

mint or nothing

To get your MINT copy,

give a missed call on

7039035039 or visit

or write to us at

Dated: January 31, 2020

GROWTH through **DIVERSIFICATION**





EXTRACT FROM THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st December 2019

S.	Particulars	STANDALONE					(₹ in Lakhs)						
N.		Quarter ended			Nine Month ended Yo		Year ended	(Quarter ended		Nine Month ended		Year ende
		31-12-2019	30-09-2019	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2018	31-03-2019	31-12-2019	30-09-2019	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2018	31-03-2019
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	374466	367057	378554	997717	918962	1230105	374466	367057	378554	997717	918962	1230105
2	Net Profit/ (Loss) from operations before exceptional items and tax	14442	2344	16605	7110	34372	46337	14376	2340	16572	7035	34227	46000
3	Net Profit/ (Loss) before tax	14442	2344	16605	7110	34372	46337	14376	2340	16572	7035	34227	46000
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	10777	2459	10392	6834	21757	29845	10711	2455	10359	6759	21612	29508
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (loss) and Other Comprehensive Income for the period	10690	2362	10425	6574	21855	29608	10624	2358	10392	6499	21710	29271
6	Equity Share Capital	49058	49058	49058	49058	49058	49058	49058	49058	49058	49058	49058	49058
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						172844						172322
8	Earning Per Share (of ₹ 10/- each)*												
- 1	(a) Basic	2.20	0.50	2.12	1.39	4.43	6.08	2.18	0.50	2.11	1.38	4.41	6.01
	(b) Diluted	2.20	0.50	2.12	1.39	4.43	6.08	2.18	0.50	2.11	1.38	4.41	6.01

Note:- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and website of the Company www.nsationalfertilizers.com

For and on behalf of Board of Directors

(Manoj Mishra) Chairman & Managing Director DIN: 06408953









गंगा को न गंदा करेंगे न करने देंगे:योगी



कानपुर | **मुख्य संवाददाता**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि न तो गंगा को गंदा करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। शुक्रवार को कानपुर में गंगा यात्रा के समापन समारोह में उन्होंने उपस्थित जनसमह को यह संकल्प भी दिलाया। कहा कि गंगा की निर्मलता, अविरलता के लिए सरकार के साथ-

साथ समाज का सहयोग भी जरूरी है। बैराज स्थित लवकुश पार्क में आयोजित सभा में योगी ने कहा कि 14 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ऑपरेशन मासूम

मोहम्मदाबाद (फर्रुखाबाद) | **हिटी**

करथिया गांव में गुरुवार शाम से रात तक

करीब 11 घंटे चले ऑपरेशन मासम के

दौरान जहां पुलिस ने बदमाश सुभाष

बाथम को ढेर कर दिया वहीं, उसकी

पत्नी रूबी को गुस्साई भीड़ ने पीट-

पुलिस ने गांव वालों के जरिए बदमाश

को ललकारा और पीछे से उसे मार

गिराया। इसके बाद घर के तहखाने में

कैद 25 बच्चों को सकुशल बाहर

निकाल लिया। शुक्रवार सुबह लोहिया

अस्पताल में रूबी को डॉक्टरों ने मृत

घोषित कर दिया। करथिया गांव में

गुरुवार की दोपहर दो बजे के बाद

बदमाश ने अपनी बेटी के जन्मदिन के

बहाने गांव के 25 बच्चों को बुलाकर

बंधक बना लिया था। पड़ोसी आदेश की



पर उपमुख्यमंत्री,भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्रद देव सिंह, डॉ. महेंद्र सिंह आदि मौजूद थे।

ने नमामि गंगे काउंसिल की पहली बैठक में नदी संस्कृति को बचाने का संदेश दिया था। पीएम ने गंगा को अर्थव्यवस्था से जोडने का संकल्प दिलाया था। हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

शुक्रवार को गंगा यात्रा के समापन पर कहा. प्रधानमंत्री की सोच थी कि गंगा से हमारा समन्वय पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ होना चाहिए। ऐसे में जनप्रतिनिधि किसानों, नौजवानों और गंगा भक्तों को जोड़कर अभियान

सैफई महोत्सव नहीं यह गंगा यात्रा है:केशव साधा निशाना

कानपुर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार न होती तो गंगा में ऐसा प्रवाह और अविरलता देखने को नहीं मिलती सरकार ने कानपुर में गंगा को गंदा नहीं होने देने का संकल्प लिया है। सरकार व समाज मिलकर गंगा को अविरल-निर्मल बनाएंगे।सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंगा यात्रा का मजाक उडाया। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि यह सैफई महोत्सव नहीं, गंगा यात्रा है।

चलाएं। इसी बचनबद्धता को दोहराने के लिए ही आज हम उपस्थित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, पांच दिन में हम लोगों ने 1338 किलोमीटर की यात्रा जल और सड़क मार्ग से पूरी की। इस दौरान 1038 गांवों और 21 नगर निकायों में रचनात्मक

योगी ने संभाली

कमान तो बनी बात

भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। योगी ने

लखनऊ। ...मैं कुछ नहीं जानता, बच्चे

हर हाल में सुरक्षित बचने चाहिए। उन्हें एक

सख्त तेवर दिखाते हुए अधिकारियों से दो

टक यह बात कही। तब तक रात के 11

बज चुके थे। मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों

की कोर टीम के साथ पल-पल की खबर

लेने के लिए मोर्चा संभाल चुके थे।सीएम के

लखनऊ तक और आगरा से कानपुर तक

का प्रशासनिक अमला चौकन्ना हो गया।

फर्रुखाबाद में बच्चे सुरक्षित बचा लिए गए।

भागे। तभी भीड़ ने पथराव कर दिया। यह

देख सुभाष घर के अंदर भागा। पुलिस

की जवाबी कार्रवाई में वह ढेर हो गया।

सख्त तेवर से फर्रुखाबाद से लेकर

स्वतंत्र देव ने विपक्ष पर

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तीनों दल परिवारवाद, वंशवाद को बढ़ावा देते हैं। भाजपा की गंगा यात्रा गंगा तट पर रहने वालों के चतुर्मुखी विकास की धारा है। गंगा के निर्मल होने से आस्था के साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। सीएए की सच्चाई से हर कोई वाकिफ हो

गतिविधियां चलीं। गंगा किनारे वाले गांवों के किसानों-ग्रामीणों को गो-आधारित खेती का संकल्प दिलाया। जगह-जगह आरती हुई। हम सबको गंगा से जुड़ाव बढ़ाने के साथ यात्रा के संकल्प को जीवन

में चुकाएं:श्रीकांत

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए ट्यूबवेल के बकाया बिलों का भुगतान आसान किस्तों में ब्याजमाफी के साथ करने के लिए 'किसान आसान किस्त योजना' शुरू की है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किसान आसान किस्त योजना के बारे में बताया कि योजना का लाभ लेने वाले किसानों का 31 जनवरी 2020 तक का ब्याज माफ रहेगा। उन्हें 6 आसान किस्तों में बिल का भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत एक फरवरी से 29 फरवरी के बीच ट्यूबवेल उपभोक्ता बकाये का पांच फीसदी या बिल भी जमा करना होगा।

न्यूनतम 1500 रुपये के साथ वर्तमान

मोहम्मदाबाद (फर्रुखाबाद) **हिटी** तहखाने में बंधक बनाए गए बच्चों को बदमाश सुभाष बार-बार गोली मारने की धमकी देकर चुप करा देता था। उस मंजर को याद कर बदमाश के चंगुल से छूटे बच्चे अब सिहर उठते हैं। छुड़ाए गए बच्चों ने शुक्रवार को आपबीती बताई। परिजनों के पास पहुंचे बच्चे डरे सहमे दिखे। बताया, बदमाश ने 25 बच्चों के बीच चार रोटियां खाने को फेंकी थी। करिथया के आनंद की पुत्री आर्वी ने बताया कि सुभाष गुरुवार दोपहर ढाई बजे बुलाकर ले गया था। कहा था, घर में केक काटना है। पैसे लुटाएंगे और चॉकलेट के साथ टॉफी देंगे। आर्वी की मां सोनी बोली, उस समय पति घर पर नहीं थे, उन्होंने सुभाष के साथ बेटी को भेज दिया।

अंजलि ने बंधाई हिम्मत

कक्षा ९ की छात्रा अंजलि भी बच्चों के साथ थी। उसने बताया कि सभी बच्चे तहखाने में बंद थे। रात में एक बच्ची शबनम रोने लगी तो उसने आवाज लगाई। इस पर सुभाष नीचे आ गया और शबनम को लेकर बाहर चला गया। उसने बताया कि 25 बच्चों के बीच सुभाष की पत्नी ने चार रोटी और मटर की सब्जी दे दी। कहा, चुपचाप खा लो, शोर मचाया तो सब मारे जाओगे। किसी ने खाना भी नहीं खाया। जो बिस्किट और टॉफी नीचे फेंकी गई थी, उसे कुछ बच्चों ने खा लिया। प्रशांत, वर्षा और कृष्णा बोले, उनकी रोते रोते तबीयत भी बिंगडने लगी। कृष्णा अपने मामा मुकेश के पास रहता है।

बदमाश बच्चों को देता था मार डालने की धमकी

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, वि.क्षे. अमरोहा, जनपद अमरोहा

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्ष अभियान, लखनऊ के पत्रांक 3992/2019-20 दिनांक 25 नवम्बर 2019 व पत्रांक गु॰वि॰/निष्ठा/5670/2019-20 दिनांक 18 दिसम्बर 2019 में दिये गये निर्देशानुसार विकास खण्ड अमरोहा पर एकीकृत सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्र के संचालन हेतु ई-निविदा में उल्लिखित मैन्यु के अनुसार भोजन की व्यवस्थ किये जाने हेतु इच्छुक ई-निविदादाताओं से दिनांक 07.02.2020 की प्रात 11:00 बजे तक ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। जो दिनांक 07.02.2020 को गठित समिति के सम्मुख प्रातः 11:30 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय मे खोली जायेंगी। धनराशि रु० 500 ई-निविदा शुल्क तथा धनराशि रु 17900/- अर्नेस्ट मनी के रूप में ब्लॉक समन्वयक, ब्लॉक संसाधन केन्द्र अमरोहा के प्रथम बैंक अमरोहा में संचालित खाता सं० 86080111631627 आई॰एफ॰एस॰सी॰ कोड PUNB0SUPGB5 में आर॰टी॰जी॰एस॰ एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से जमा कर ई-निविदा में प्रतिभाग किया जा सकत है। अन्य नियम व शर्तें वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर अपलोड हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी वि०क्षे० अमरोहा।

ईंट भट्टा नियम विपरीत संचालन पर नोटिस

भट्टा संचालित करने के मामले में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकल प्राधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न आदेश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने वरिष्ठ अधिवक्त अनूप त्रिवेदी एवं अधिवक्ता विभू राय व अभिनव गौर को सुनकर दिया है।

मऊ में तेल फैक्ट्री में भीषण आग

मऊ। शहर कोतवाली क्षेत्र के अति व्यस्त मुहल्ला हट्टी मदारी के रौजा बाजार स्थित एक तेल फैक्ट्री में शुक्रवार की अपरान्ह आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी विकराल रूप धारण कर लिया। डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया।

जनवरी से कर्मचारियों के डीए में 4% वृद्धि तय

प्रयागराज। सरकारी कर्मवारी के महंगाई भत्ता (डीए) में पहली जनवरी 2020 से चार प्रतिशत बढ़ोत्तरी निश्चित हो गयी है। इससे केंद्रीय और राज्यकर्मियों का डीए 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो जाएगा। पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़कर 21 प्रतिशत हो

स्वामी वासुदेवानंद के शिविर में आग

प्रयागराज। माघ मेला के सेक्टर चार में शुक्रवार दोपहर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के शिविर में अचानक आग लग गई। इस घटना से वहां अफरातफरी मच गई। आग में टेंट के साथ वहां रखे सामान जल गए। सचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अग्निशमन कर्मचारियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया।

25 बिल्डरों के पंजीकरण खारिज किया

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा के एक बिल्डर सहित लखनऊ, गोरखपुर और आगरा के 25 बिल्डर का पंजीकरण रद्द कर दिया। ग्रेटर नोएड में जिस बिल्डर का प्रोजेक्ट रद्द किया गया है, वह वैष्णो एंक्लेव परियोजना के नाम से थी।

एनआरएचएम घोटालाः पूर्व सीएमओ ने किया सरेंडर

गाजियाबाद। बलरामपुर के स्वास्थ्य विभाग में हुए एनआरएचएम घोटाले के मामले में आरोपी तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर त्रिलोचन सिंह ने शुक्रवार को विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दोपहर बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने सशर्त जमानत अर्जी देने के आदेश दिए। अदालत के मुताबिक बसपा शासन में वर्ष 2008 से 2010 तक की अवधि में दवा खरीदारी में यह घोटाला उजागर हुआ था।

बरेली में दुर्लम बीमारी का मरीज मिला

बरेली। कोरोना वायरस से बचाव के प्रयासों में जटे स्वास्थ्य विभाग के लिए एक और चिंताजनक खबर है। दुर्लभ और खतरनाक बीमारी जीबी सिंड्रोम ने जिले में दस्तक दे दी है। बीमारी की पुष्टि होने के बाद गुरुवार को एक मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद मरीज को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों की मानें तो यह दुर्लभ बीमारी लाखों में से किसी एक व्यक्ति को ही होती है

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी. वि.क्षे. धनौरा. जनपद अमरोहा

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्ष अभियान, लखनऊ के पत्रांक 3992/2019-20 दिनांक 25 नवम्बर 2019 व पत्रांक गु॰वि॰/निष्ठा/5670/2019-20 दिनांक 18 दिसम्बर 2019 में दिये गये निर्देशानुसार विकास खण्ड धनौरा पर एकीकृत सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु ई-निविदा में उल्लिखित मैन्यु के अनुसार भोजन की व्यवस्था किये जाने हेतु इच्छुक ई-निविदादाताओं से दिनांक 07.02.2020 की अपरान्ह12:00 बजे तक ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। जो दिनांक 07.02.2020 को गठित समिति के सम्मख अपरान्ह 01:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में खोली जायेंगी। धनराशि रु० 500 ई-निविदा शुल्क तथा धनराशि रु० 14660/- अर्नेस्ट मनी के रूप में ब्लॉक समन्वयक, ब्लॉक संसाधन केन्द्र धनौरा के सिंडिकेट बैंक धनौरा में संचालित खाता संव 85842200072655 आई॰एफ॰एस॰सी॰ कोड SYNB0008584 मे आर०टी०जी०एस०/ एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से जमा कर ई-निविदा मे प्रतिभाग किया जा सकता है। अन्य नियम व शर्तें वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर अपलोड हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है

खण्ड शिक्षा अधिकारी

पत्नी बबली जब अपनी पुत्री खुशी और पणजी , चेन्नई से बड़ा है लखनऊ का आयोजन



लखनऊ| **विशेष संवाददाता**

लखनऊ का डिफेंस एक्सपो पणजी व चेन्नई में हुए इस तरह के आयोजन से कई गुना बड़ा है। इस बार से सबसे ज्यादा हथियार निर्माता कंपनियां शिरकत

देशों की भागीदारी के लिहाज से इस बार

प्रदेश में फिर

रॉक फास्फेट

शुरू होगा

का खनन

लखनऊ । खाद,

प्रसाधन, जंगरोधी

लेप और माचिस

बनाने में उपयोगी

रॉक फास्फेट का

खनन बहुत जल्द

तैयारी है। ललितपर

जिले की ग्राम टोरी

और पिसनारी में

रॉक फास्फेट के

भुतत्व एवं खनिकर्म

विभाग ने वन विभाग

है। जिसकी प्रक्रिया

चुकी है। ५० सालों

फास्फेट के खनन

छात्रा के सिर

पर क्लास में

लगाया तमंचा

सांडी (हरदोई)।

बोर्ड परीक्षा का

प्रवेश पत्र लेने

कॉलेज पहुंची एक

छात्रा के सिर पर

छात्र ने तमंचा लगा

क्लास के अंदर

दिया। जान से

देकर वह भाग

मारने की धमकी

गया । इससे क्लास

में भगदड मच गई।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज

कर आरोपित को

पकड़ लिया है।

सांडी कस्बा के

मोहल्ला खिडकियां

निवासी नाबालिग

करबे के ही एक

की छात्रा है।

कॉलेज में कक्षा 10

सूचना पर पहुंची

की योजना है।

से अनुमति मांगी

काफी आगे बढ

तक यहां रॉक

5

8

9

10

11

13

खनन के लिए

शुरू करने की

दवाएं, सौंदर्य

का आयोजन बड़ा है। साथ ही कंपनियों से होने वाले एमओयू की तादाद भी इस बार ज्यादा होने की उम्मीद है। असल मे डिफेंस एक्सपो दिल्ली में ही आयोजित होता था। हर दो साल में होने वाला यह आयोजन दिल्ली में आठ बार हआ। इसके बाद पहली बार यह आयोजन दिल्ली से बाहर समुद्र तटीय इलाके वाले राज्य गोव की राजधानी पणजी पहुंचा। 2016 मे गोवा डिफेंस एक्सपो के नवें संस्करण का उद्घाटन तत्कालीन रक्षा मंत्री स्व. मनोह परिकर ने किया। इसके दो साल बाव डिफेंस एक्सपो का आयोजन चेन्नई में 2018 में हुआ।

Name of the Work

Type of Tender

Type of Contract

Estimated Cost (Rs.)

Period of Completion

Online Tender Fee

EMD/Bid Security

website

& Venue

Tender Document Fee

Date/Time of Publication of

Tender on e-Procurement

Date of Pre-bid meeting

Last Date/Time of for

Submission of Tender Fee

Documents Submission

Contact Details for the

Bid Submission

Last Date/Time of

Date of Technical

Bid Opening

quries (if any)

Address

& EMD (Hard Copy)

Mode of Bid Submission

Prayagraj Smart City Limited (PSCL) UttarPradesh

1st Floor, Galaxy Building, Near Civil Lines

Bus Stand, Prayagraj-211001 Uttar Pradesh

NOTICE INVITING TENDER

मासुम की कमान संभाल ली।

सबसे पहले छत पर पहुंचे। वहां से पूरे



बदमाश की पत्नी को भीड़ ने मार डाला

पीछे वाले हिस्से में एक दरवाजा दिखा। बेटे आदित्य को बुलाने के लिए उसके इसी बीच बदमाश चिल्लाया कि अब घर गई तो बंधक बनाए जाने की जानकारी हुई। इस पर शाम चार बजे से वह सभी बच्चों को मार डालेगा। इसके पुलिस हरकत में आई। रात 12.10 साथ ही उसने दो फायर भी कर दिए। इस बजे के बाद मौके पर पहुंचे आईजी रेंज बीच, आईजी ने पुलिस की दो टीमों कानपुर, मोहित अग्रवाल ने आपरेशन और लोगों को मुख्य दरवाजे पर शोर मचाने के लिए लगा दिया। उसका ध्यान ऐसे दिया गया ऑपरेशन को बंटते ही मोहित अग्रवाल ने स्वाट टीम अंजामः मौके पर पहुंचते ही आईजी

व चार दरोगाओं के साथ पीछे वाला दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटते ही

दूसरी ओर भीड़ ने रूबी को लहूलुहान कर दिया। पुलिस उसे अस्पताल में भर्ती सुभाष और उसकी पत्नी रूबी बाहर कराया जहां उसकी मौत हो गई।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियंता / सी द्वारा ई–टेन्डर जिनके बंद होने की तिथि 25.02.2020 है। निम्न टेन्डर संख्या के अर्न्तगत आमंत्रित किये जाते है जो उसी दिन 16:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। निविदा की कीमत तथा धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भगतान करना होगा। डिमांड डाफ्ट, बैंकर्स चैक, डिपाजिट रसीद आदि स्वीकार नहीं होंगे। टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in

टेन्डर संख्या दिनांक	212-DRM-MB-19-20 Date : 30.01.2020					
कार्य का नाम	सहायक मण्डल अभियंता बरेली के आधीन प्लेटफार्म नं. 4 पर (मुरादाबाद साइड एफ.ओ.बी.) 2 नं. स्वाचालित यात्री सीढीयों के प्रावधान के लिए सिविल इंजीनियंरिंग से संबंधित कार्य।					
टेन्डर क्लोसिंग दिनांक/समय	25.02.2020 (16:00)					
अनुमानित लागत	32,81,700.97					
धरोहर राशि	65,600.00					
टेन्डर फार्म की लागत	3000.00					
बिडिंग स्टार्ट तिथि	11.02.2020					
आफर की वैधता	45 दिन					
कार्य पूर्ण करने की अवधि	02 माह					
No. 75-W/2/3/WA/Publication Dated : 30.01.2020						
गाहकों की सेवा में मस्कान के साथ						

'Design, Engineering, Construction of Multi-

Level Car Parking, Commercial Space Building (at plot GG-I, Civil Lines, S.P. Road,

Prayagraj City (U.P.) under Prayagraj Smart

City Mission on Engineering, Procurement &

National Competitive Bidding (NCB) System

Engineering, Procurement & Construction

Rs. 82.81 Crores (Rupees Eighty Two Crore

Eighty One Lakh only) excluding GST

24 Months from the date of Award of Contract

Rs. 1.66 Crores (Rupees One Crore Sixty Six

Rs. 5,000/- plus applicable GST @ 18%

10/02/2020 @ 2.30 P.M. at PSCL Office, 1st

Prayagraj Smart City Limited, 1st floor,

floor, P Square mall, Civil Ines bus stand,

Construction (EPC) basis"

(EPC) Contract

amount.

Work.

e-tendering https://etender.up.nic.in

e-tendering https://etender.up.nic.in

Lakhs only) (Refundable)

(nonrefundable)

02/03/2020 @ 2.00 P.M

02/03/2020@2.30 P.M

02/03/2020 @ 3.00 P.M

Prayagraj (U.P.)-211001

(Techinical), PSCL. (email ID:

missionmanager.ascl@gmail.com)

Contact: No. 9415191331, 9565555552

03/02/2020



Jubilant Life Sciences Limited

Regd. Off.: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN: L24116UP1978PLC004624 Website: www.jubl.com | Email: investors@jubl.com | Tel: +91-5924-267200

Extract of Consolidated Unaudited Results for the Quarter and Nine months ended 31 December 2019

(₹ in Lakhs) **Quarter Ended** Year Ended 31 March 31 December | 30 September | 31 December | 31 December | 31 December **Particulars** (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 2018 2019 Total revenue from operations 231521 226593 237710 676300 672524 911082 Net Profit before tax, exceptional and 32796 29223 37075 88922 98926 118404 extraordinary items Net Profit before tax (after exceptional and 29332 29223 35561 85458 94379 90381 extraordinary items) Net Profit after tax, exceptional and extraordinary 20338 24939 26752 63775 67766 57701 Total comprehensive income after tax 25299 27320 8728 75822 65201 56323 (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax) Earnings per share of ₹ 1 each (Not annualized) 40.04 Basic (₹) 12.77 15.66 16.74 43.24 36.86 Diluted (₹) 12.77 15.66 16.74 40.04 43.24 36.86 1593 1593 1593 1558 1593 1558 Equity share capital Reserves (excluding revaluation reserve) 479299

1. The Company has opted to publish consolidated results for the year ending 31 March 2020. The standalone unaudited results are available under Investors section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key standalone financial information of the Company is as under: (₹ in Lakhs)

Particulars -		Quarter Ended		Nine Mon	Year Ended		
	31 December	30 September	31 December	31 December	31 December	31 March	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
	2019	2019	2018	2019	2018	2019	
Total revenue from operations	80118	75754	85958	234854	257349	343861	
Profit before tax	3496	10620	5238	18848	17704	18343	
Net profit after tax	3463	14307	3670	20996	14019	14763	
Net profit after tax The chave concelled ted unquelited recults were							

- Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 31 January 2020.
- The above is an extract of the detailed format of the consolidated unaudited results for the guarter and nine months ended 31 December 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format for the consolidated unaudited results for the quarter and nine months ended 31 December 2019 is available under Investors' section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Hari S. Bhartia

Note: Only e-tenders shall be accepted. Further details are available on U.P. Government e-Procurement website and select Prayaraj Smart City and can be seen on the website: https://etender.up.nic.in **RAVI RANJAN**

P Square Mall, near civil lines bus stand, Shri Sanjeev Kumar Sinha, Mission Manager

> Place: Noida : 31 January 2020

For Jubilant Life Sciences Limited Co-Chairman & Managing Director